



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 473] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 1981/आश्विन 29, 1903
No. 473] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1981/ASVINA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1981

का.आ. 759(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 17 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य कृषि विशेषज्ञ, कृषि और सहकारिता विभाग को, जो नारियल विकास के संबंध में कृषि आयुक्त के कृत्यों का पालन कर रहे हैं, नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उम प्रयोजन के लिए भारत सरकार

के कृषि संचालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 21(अ) तारीख 12 जनवरी, 1981 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 2 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. मुख्य कृषि विशेषज्ञ — सदस्य पदेन” ।
कृषि और सहकारिता विभाग
भारत सरकार ।

[फा.सं. 14-23/81-सी.ए. 1]

के. सी. एस. आचार्य, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1981

S.O. 759(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), read with section 17 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby appoints the Chief Agricultural Expert, Department of Agriculture and Co-operation, who is performing the functions of Agriculture Commissioner relating to coconut development, as a member of the Coconut Development Board, and for that purpose amends the Government notification, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) No. S.O. 21(E), dated the 12th January, 1981, as follows, namely :—

In the said notification, for entry (relating to) 2, the following entry shall be substituted, namely :—

“2. Chief Agricultural
Expert, Department of
Agriculture and
Co-operation,
Government of India.

Member
Ex-Officio”.

[File No. 14-23/81-C.A. 1]

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.